140							
							16
		•					,
							X 54.
			FX.		19		18.
9 .							
							1
	2						
					*		
							•,
						140	
	55				18	5	
, a				:			
					5		98
#							

JINDAL PHOTO LIMITED

REF: JPL/SECTT/MARCH-22/76

March 16, 2022

To,

The Manager,

Department of Corporate Services

BSE Limited ("BSE") Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai – 400001

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G - Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532624

Stock Symbol: JINDALPHOT

Dear Sir / Madam,

Sub: Delisting of Equity Shares of Jindal Photo Limited ("the Company") in terms of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021

Dear Sirs,

We have received from Sundae Capital Advisors Private Limited, Manager to the Issue, on behalf of the Acquirer, copies of the Public Notice, issued for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise. The Public Notice has been published on March 16, 2022 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai edition (being regional language of the
		place where the Stock Exchange is situated)

Request to kindly take the above on record.

Thanking you

Yours faithfully, For Jindal Photo Limited

Ashok Yadav Company Secretary Place: New Delhi

Place: New Delhi Encl: as above

.

Regd. Office: 19th K.M. Hapur-Bulandsin in Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh-203408.

CIN: L33209UP2004PLC095076, E-mail: cs_jphoto@jindalgroup.com, Website: www.jindalphoto.com



Level 9, Platina, Plot No. C-59, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051

Ph.: +91 22 6700 0639
E-mail: info@sundaecapital.com
www.sundaecapital.com

Date: March 16, 2022

To,
The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited ("BSE") Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

To National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G - Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532624

Stock Symbol: JINDALPHOT

Sub: Delisting of Equity Shares of Jindal Photo Limited ("the Company") in terms of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021

Ref: Initial Public Announcement dated December 01, 2021 and Detailed Public Announcement dated March 08, 2022, issued by Sundae Capital Advisors Private Limited, the Manager to the Delisting Offer on behalf of Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, to the Public Shareholders to acquire 27,98,511 (Twenty Seven Lakhs Ninety Eight Thousand, Five Hundred and Eleven) Equity Shares of Jindal Photo Limited (the "Company")

Dear Sirs,

The Acquirer (as defined in the Letter of Offer dated March 08, 2022) have given a Delisting Offer to the Public Shareholders of Jindal Photo Limited for tendering their fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each of the Company.

The Acquirers, for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise, have issued a "Public Notice", published on March 16, 2022 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai edition (being regional language of the place where the Stock Exchange is situated)

Request to kindly take the above on record.

Thanking you

Yours sincerely,

for Sundae Capital Advisors Private Limited

Ridima Gulati Sr. Manager

Regd. Office: 3rd Floor, C - 11, Community Centre, Janak Puri, New Delhi - 110 058

Date: 15/03/2022 Place: Jaipur

Zonal Office, Jaipur

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SEC.13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002. Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount an future interest due to NPA of their account by the authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposite within 60 days, the said amount was to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The Branch has not received the acknowledgment of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notic that deposit the loan amount with future interest and expenses, hence further steps will be taken by the bank under provisions of sectio 13 and 14 of the said Act.

Date of Notice U/s 13(2)	Guarantor A/c No. & NPA Date	Outstanding Amount	l
02/03/2022 1. (Bo	M/s. Ghasal Impex (Prop. Dinesh Chaudhary) rrower) Add.: Gopal Ji Ki Dhani, Village Dungari, Post	Rs. 36.29.215/-	1
Hingonia, Teh. Kis Chaudhary S/o Ra Dhani, Village Dur 303328, Rajasthar (Guarantor) Add.: Kishangarh Renwa Agriculture Departr Tehsil Dhod, Dist 6444340960, (SME	hangarh Henwal, Jaipur-303328, Rajasthan 2. Dinesh m Marayan (Proprietor) Mortgager) Add: Gopal Ji Ki Igari, Post Hingonia, Teh. Kishangarh Renwal, Jaipur-, 3. Mrs. Santara Devi W/o. Mr. Dinesh Chaudhary Gopal Ji Ki Dhani, Village Dungari, Post Hingonia, Teh. I, Jaipur-303328, Rajasthan At Present Posted: Under nent of Rajasthan, Gram Panchyat Kudan, Village Kudan, Sikar, Rajasthan. Loan Account No. (OD Secured) T. L. 6445073333, (FITL) 6786121926 and (IND GECLS)	as on 02.03.2022 and further interest & other	
6890111779 NPA	Date: 28.11.2021		

residential Plot No 575, Gram Dungari, Gran Panchayat Jorpura Sundariyawas, Tehsil Kishangari Renwal, Dist Jaipur (Raj.)-303328 admeasuring 2023.36 Sq Mtrs in the name of Read, Sale Deed No 2013397023858, Dated 8.11.2013. Bounded a under: East: Owner's Plot, North: Land of Sh Gopa Nitharwal, West: Rasta 20', South: Owner's Land lypothecated assets:- 2. Hypothecation of Liv

tocks/Movable Equipments/Stock situated at Gopa Ji Ki Dhani, Village Dungari, Post Hingonia, Tel ngarh Renwal, Jaipur-303328, Rajasthan Yours Faithfully, (Authorised Officer) INDIAN BANI

Description of the Mortgaged Assets

Mortgaged assets:- 1. Equitable mortgage



Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 17.12.2021 calling upon the Borrower Sh. Sanjay Laddha S/o Sh. Parasram Laddha, Smt. Vaishail Laddh. W/o Sh. Sanjay Laddha (Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice being if Term Loan A/c amount of Rs. 37.65,958.45 including interest upto 12.12.2021 and furthe interest, other expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Ac read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this 10th day of Month 03 of the year 2022. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank o Baroda, for an amount Rs.37,56,958.45 including interest upto 12.12.2021 and further interes and other expenses thereon. The Borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) o section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property All that part and parcel of residential property situated at, Patta No. 38, Aabadi Halka, Bhilo Ka Kheda Arjiya Gram Panchayat-Arjiya, Panchayat Samiti-Suvana, Tehsil and District-Bhilwara (Raj.) in the name of Sh. Sanjay Laddha S/o Sh. Parasram Laddha (admeasuring 9200 Sq. ft. as per records available in bank) Registered under Sub district Bhilwara and District Bhilwara (Raj.) Bounded by: East: Property of Sh. Kalu S/o Sh. Dhoola Bhil & Sh. Suwa S/o Sh. Bhagu Bhil, West: Property of Sh. Bakshu S/o Sh. Naru Bhil, North: Road, South: Agricultural Land Data: 10.03.2021 Place: Bhilwara (Raj.) Date: 10.03.2021 Place: Bhilwara (Raj.) Authorised Officer, Bank of Baroda

(i) ICICI Bank

NBCC Place Pragati Vihar, New Delhi-110003

Regd. Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390 007 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

PUBLIC NOTICE - AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

Sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) and rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas, the undersigned being an Authorized Officer of ICICI Bank Limited ("ICICI Bank") under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002, ("SARFAESI Act") and in exercise of the powers, conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 ("Rules"), issued a statutory demand notice on February 21, 2017 under section 13(2) of the said Act, upon Mr. Bharat Kumar (Proprietor B. Soni Jewellers) (Borrower, Mortgagor and Personal Guarantor-I) and Mrs. Parul Bharat Kumar (Personal Guarantor-II) to repay Rs. 21,03,51,342.54 (Rupees Twenty One Crore Three Lakhs Fifty One Thousand Three Hundred Forty Two and Paisa Fifty Four Only) outstanding as on December 31, 2016 along with further interest, default/penal interest, cost and other charges the property of the security of the security of the security of the security is proportion to the security of the security in the security of the Thousand Three Fundated Porty Two and Faisa Fifty Four Only) dustaining as on December 31, 2016 along with further interest, default/penal interest, cost and other charges thereon till the date of payment in accordance with their respective obligations stipulated in the underlying transaction documents, within 60 days from the date of receipt of the said demand notice. Hereinafter, Borrower / Mortgagor / Personal Guarantors are collectively referred to as "Noticee(s)". That, the Noticee(s) failed and neglected to comply with the said demand. And whereas, in exercise of powers conferred under section 13(4) of the SARFAESI Act read with the Rules, the Authorized Officer had taken possession of below mentioned property ("Secured Asset") on January 24, 2018. Public at large is hereby informed that ICICI Bank is inviting offers for the sale of Secured Asset (as described in the Schedule below) under the provisions of SARFAESI Act and the Rules thereunder on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "Without any recourse basis" as per details given below

SCHEDULE							
Description of the Secured Asset	Reserve Price	Earnest Money Deposit					Date and time
			Value (In Rs.)	Inspection a	and time	submission of EMD	of e-Auction
Commercial Property situated at Unit No. 407 to Unit No.		12,15,000.00		March 24		April 04, 2022 up to	
412, bearing number (M.C.No.) B-17-478/2-A, 4th floor,				(11:00 AM	to 01:00	4:00 PM	(11:00 AM to
Dhyan Singh Complex, adjoining Bus Stand, Model Town				PM) with	prior		12:00 Noon)
Road, Ludhiana- 141001 in the name of Mr. Bharat Kumar				intimation	-		

TERMS & CONDITIONS

(1) The online auction will be conducted through M/s e-Procurement Technologies Limited (Auction tiger) on the website of auction agency is ttps://icicibank.auctiontiger.net.and shall be subject to terms & condition contained in the Tender cum Auction Document which is available on https://icicibank.auctiontiger.net (2) For any clarifications with regard to inspection, terms and conditions of the auction or submission of tenders, kindly contact Mr. Karan Kakkar, Authorized Officer o ICICI Bank Limited at +91 70427 92970 or write at karan.kakkar@icicibank.com or Mr. Hitesh Gulati, Relationship Manager of ICICI Bank Limited at +91-73032 - 67202 o write at hitesh.gulati@icicibank.com.

(3) The Noticee(s) in particular and the public in general are hereby cautioned and restrained not to deal with the Secured Asset, as detailed above, in any manner in terms of section 13(13) of the SARFAESI Act and any dealing with the Secured Asset will be subject to the charge of ICICI Bank over the Secured Asset for the outstanding amount

together with interest, compound interest, liquidated damages other charges thereon at the contractual rates until payment/realization owed by the Noticee(s) to ICICI Bank.

(4) The Noticee(s) are given last chance to repay the total outstanding dues of Rs. 49,85,62,347.54 (Rupees Forty-Nine Crore Eighty-Five Lakhs Sixty-Two Thousand Three Hundred Forty-Seven and Fifty-Four Paisa Only) outstanding as on January 31, 2022 along with further interest and other charges thereon at the contractual interest rates. The said dues are required to be paid by the Noticee(s) on or before April 05, 2022 to redeem the Secured Asset, failing which, the Secured Asset will be sold as per schedule, as mentioned above.

(5) In case there is any discrepancy between the publication of sale notice in English & vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity.

Statutory 15 days Sale notice under Rule 8(6) of the Rules

The Noticee(s) are once again is hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the Secured Asset will be auctioned/sold and balance dues, if any will be recovered with interest and cost. If auction fails due to any reasons whatsoever, ICICI Bank would be at liberty to sell the above Secured Asset through Private Treaty or any other means without any further notice to the Noticee(s) and in accordance with the provisions mandated

nder SARFAESI Act and the Rules thereunder SD/- Authorized Officer Date: March 16, 2022 Place: New Delhi

KOTAK MAHINDRA BANK LTD. Registered Office: 27-BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 05 **(** kotak

DEMAND NOTICE NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURTISATION AND RECONSTRUCTION OF

Notice UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECORSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

Notice is hereby given that the following borrower/Co-Borrowers, who have availed loan facilities from KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED (KMBL) having its branch office at 7th Floor, Ambadeep Building, 14 KG Marg, Cannaught Place, New Delhi-110001, have failed to serve the interest of their credit facilities to KMBL and that their loan accounts has been classified as NPA as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Borrowers have provided security of the immovable properties to MMBL and etails of which are described begins below. The details of the loan and the amounts. KMBL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amoun utstanding and payable by the borrowers to KMBL as on date 12.01.2022 are mentioned below.

outstanding and payable by the outstanding and payable by the Commercial are hereby and reference below. The borrower /Co-Borrowers as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of KMBL, the secured creditor has initiated action against the following borrower /Co-Borrowers under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financia Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrower fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the

section (2) of Section 13 of the SARFAESI Act, inclusell the same. The public in general is advised not to	1 1 2
Name of the Borrowers / Guarantor & Mortgagor	Details of secured asset (Immovable Property)
1. MR. VISHAL SRIVASTAVA (Borrower/ Mortgager), 2. MRS. SHIVALI SRIVASTAVA (Co-Borrower/Mortgager) Both available at: C-6, 1st FLOOR, SEC-48, NOIDA 201301, Both also available at: 96, Yamaha Vihar Colony, Sector-49, Noida-201301. Both also availaber at: Flat No. 508, 5th Floor, Parkview Tower, Prateek The Royal Cliff, Crossing Republic, Dundahera, NH-24, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009	All that part and parcel of the property consisting of: "Residential Apartment No. 508 on 5th floor in multistoried Building "Prateek The Royal Cliff" Tower PARKVIEW, Constructed in the Group Housing Plot No. 6, in the Township Known as Crossing Republik TM Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh", Having a Super Area 151.71 Sq. Mtr. (Covered Area 121.37 Sq. Mtr.) approximately. Bounded By- North-24 mtr. Wilder Road. East: 30 mtr. Wide Road. South: Other
Loan Account No., Demand Notice Date and Amount	Project eastern Court, West:- other Project
Loan Account No. IHL23007 Demand Notice Date: 18/02/2022 Outstanding Amount: Rs.	Bulland Height Loan Account No., Demand Notice Date and Amount
l	

6,11,173.34/- as on 12.01.2022 NPA Date: 6th January' 2022

Loan Account No. IHL70369 Demand Notice Date: 18/02/2022 Outstanding Amount: Rs 1.66.670/- as on 12.01.2022

Date: 15/03/2022 Place: Delhi/NCR For Kotak Mahindra Bank Ltd., Authorised Officer

Bank of India BOI	Branch: Plot No. 102, 103, 123, Pandit T.N. Mishra Marg Near Mansarovar Metro Station, Santosh Nagar, Nirman Nagar, Jaipur (Raj.)
APPENDIX IV [Ru	ile 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
	Officer of the Bank of India , under the Securitisation and Reconstruction

or Financial Assets and Emorcement of Security interest Act, 2,002 (34 of 2002) and in exercise of sowers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 06.04.2021 calling upon the Borrower **Sh. Jaikuma** Jain S/o Sh. Kanhiya Lal Jain to repay the amount mentioned in the notice being i San 1,20,438.32 including interest upto 06.04.2021 and further interest and other expenses within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, the notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of act read with

rule 8 of the security interest (enforcement) rule 2002 on this the 10 day of March of the

year 2v22.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Bank of India**, for an amount of **Rs.** 11,28,072.32 including interest upto 10.03.2022 and further interest and other he borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

respect of time available, to redeem the secured assets.								
Description	of the Immovable Properties (as p	er Record Available with	ı Bank)					
Name of The Property owner	All that part and parcel of the Property consisting of	As Bounded By	Sub Registrar					
Sh. Jaikumar Jain S/o Sh. Kanhiya Lal Jain	Situated at Plot No.14/OH/S-218, Scheme Ring Road Project, Block- OH, Gram Goner, Tehsil: Sanganer, Jaipur (Raj.) (Measurement As per Bank Record 12.50 Sq.mt.	14/0H/S-219, West:	Jaipur-I					
Sh. Jaikumar Jain S/o Sh. Kanhiya Lal Jain	Situated at Plot No.14/OH/S-229, Scheme Ring Road Project, Block- OH, Gram Goner, Tehsil: Sanganer, Jaipur (Raj.) (Measurement As per Bank Record 12.50 Sq.mt.	230, West: Plot No.14/0H/ S-228,	Jaipur-I					
Sh. Jaikumar Jain S/o Sh. Kanhiya Lal Jain	Situated at Plot No.14/OH/S-479, Scheme Ring Road Project, Block- OH, Gram Goner, Tehsil: Sanganer, Jaipur (Raj.) (Measurement As per Bank Record 12.50 Sq.mt.	Road, North: Plot No.	Jaipur-I					
Sh. Jaikumar Jain S/o Sh. Kanhiya Lal Jain	Situated at Plot No.14/OH/S-497, Scheme Ring Road Project, Block- OH, Gram Goner, Tehsil: Sanganer, Jaipur (Raj.) (Measurement As per Bank Record 12.50 Sq.mt.	East: Road, West: Road, North: Plot No. 14/OH/S-496, South: Plot No. 14/OH/S-498	Jaipur-I					
Date: 10.03.2022 Place: Jaipur Authorised officer, (Bank of India)								

PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF **Jindal Photo Limited**

(CIN: L33209UP2004PLC095076) Registered Office: 19™ K.M. Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408 oorate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel.: +91 11 4032 2100 Website: www.jindalphoto.com, Email: cs_jphoto@jindalgroup.com

This Public Notice is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager" or "Manage to the Offer") for and on behalf of the Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, along with Concatenate Advest Advisory Private Limited and other members of promoter and promoter group of Jindal Photo Limited, (the "Acquirer") to the Public Shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") (as defined below) ("Public Shareholders") of Jindal Photo Limited (the "Company") in respect of the proposed acquisition of the fully paid up equity shares of the company with a face value Rs. 10 each ("Equity Shares") that are held by the Public Shareholders and consequent voluntary delisting of the equity shares of the Company from the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (BSE and NSE are collectively referred to as the "Stock Exchanges" ("Delisting Offer")

This Public Notice is to be read together with:

a) Initial Public Announcement made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirers to the Stock Exchanges dated December 01, 2021 (the "IPA");

the detailed public announcement in connection with the Delisting Offer, published on March 08, 2022 in (i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); and iii) Mumbai Lakshadeep (Marathi - Mumbai Edition) (the "DPA"); and

the letter of offer dated March 08, 2022 in connection with the Delisting Offer ("Letter of Offer"

The Acquirer(s) have completed the dispatch of Letter of Offer along with Bid cum Acceptance Form / Bid Forn through e-mail / speed post / registered post to all the shareholders of the Company on March 10, 2022 who were holding Equity Shares as on the Specified Date (i.e. March 04, 2022). In the event of accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder or any Public Shareholder who has bought the Equity Shares after Specified Date, they may obtain a copy of Letter of Offer by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Link Intime India Private Limited, at their address 'C - 101, 1st Floor 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra', clearly marking the envelope "Jindal Photo Limited - Delisting Offer"

The shareholder can participate / tender their Equity Shares of the Company ("Equity Shares") under the Delisting Offer through the reverse book-building process in accordance with the SEBI Delisting Regulations Please note the following in respect of the Delisting Offer:

DELISTING OFFER								
Bid Opening Date	March 17, 2022	Thursday	Bids can be placed only during normal					
Last Date for Upward Revision or	March 23, 2022	Wednesday	trading hours of the secondary market					
Withdrawal of Bid								
Bid Closing Date	March 24, 2022	Thursday						
Floor Price Per Share	Rs. 268.04/- (Rupees Two Hundred and Sixty Eight and Four Paise only)							
	per Equity Share							
Indicative Price Per Share	Rs. 269/- (Rupee	Rs. 269/- (Rupees Two Hundred and Sixty Nine only) per Equity Share						

The Public Shareholders may also obtain copies of Letter of Offer from the website of the BSE at www.bseindia.com or NSE at www.nseindia.com, or from the website of the Registrar to the Offer, at www.linkintime.co.in and the website of the Company at www.jindalphoto.com.

FOR EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM: Before submitting the Bid Form to the Seller Member(s) you must execute valid share transfer deed(s) in respect of the Equity Shares intended to be tendered under th Delisting Offer and attach thereto all the relevant original physical share certificate(s). The share transfel deed(s) shall be signed by the Public Shareholder (or in case of joint holdings by all the joint holders in the same order) in accordance with the specimen signature(s) recorded with the Company and shall also be duly witnessed. A copy of any signature proof may be attached to avoid any inconvenience. In case, the sole/any join holder has died, but the share certificate(s) are still in the name of the deceased person(s), please enclose the requisite documents, i.e., copies of death certificate/Will/Probate/Succession Certificate and other relevant papers, as applicable

Please refer Para 15 of DPA and Para 11 of LOF for Detailed Procedure and Methodology of Bidding through Stock Exchange.

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigatio and analysis and shall not have any claim against the Acquirer, the Manager to the Offer or the Promoter, or the Company or the Registrar to the Offer or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Offer and tender of equity shares through reverse book building through Acquisition Window Facility or OTB or otherwise whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

This Public Notice is issued only for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS BY THE MANAGER TO THE OFFER Sundae Capital Advisors Private Limited



for Soyuz Trading Company Limited

Iti Goval

Director

SEBI Regn. No.: IMM000012494
Level 9, "Platina", Plot No. C - 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel.: +91 22 6700 0639

E-mail: jpl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com
Contact Person: Anchal Lohia / Ridima Gulati On behalf of Acquirer to the Offer

Director Place: New Delhi Date: March 15, 2022

Radhey Shyam

Pramod Kumar Company Secretary

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001

Branch Office: Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under.

The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in

Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF BORROWER & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF TABLE OF TABL		2	
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	Loan A/C No. No. XOHEEDL00002195238, XOHEEDL000002215691 and HE02EDL00000004407. 1.KAPIL BHARDWAJ 2. BHAWNA BHARDWAJ 3. SHRADDHA CARDS & PRINTING 4. SHRADDHA CREATIONS All Above At: GS-173, MALIBU TOWNE, SOHNA ROAD TIKRI, SEC17, ISHLAMPUR, GURGAON -122001	29.11.2021	Rs. 2,93,45,524.2/· as on 11.11,2021	Property 1 All that piece and parcel of the G.S. 173 Malibu Towne Sohna Road, - 122018, Haryana. Property 2 All that piece and parcel of the Shop No. 5, First Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 3 All that piece and parcel of the Shop No. 6, First Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 4 All that piece and parcel of the Shop No. 8, First Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 5 All that piece and parcel of the Shop No. 4, First Floor, Bhargava Palace New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 6 All that piece and parcel of the Shop No. 7, First Floor, Bhargava Palace New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 7 All that piece and parcel of the Shop No. 7, First Floor, Bhargava Palace New Railway Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 7 All that piece and parcel of the Shop No. 5F-15, Second Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon, Gurgaon 122001, Haryana Property 8 All that piece and parcel of the Shop No. 3, Lower Ground Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon; Gurgaon; Gurgaon - 122001, Haryana Property 9 All that piece and parcel of the Shop No. 13, Lower Ground Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon; Gurgaon - 122001, Haryana Property 10 All that piece and parcel of the Shop No. 30, Lower Ground Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon; Gurgaon - 122001, Haryana Property 10 All that piece and parcel of the Shop No. 30, Lower Ground Floor, Bhargava Palace, New Railway Road, Gurgaon; Gurgaon - 122001, Haryana	12.03.2022 SYMBOLIC
2.	Loan A/c No. No. XOHEDHE00001305333. 1. KUNAL JAIN At: C-1402, ANSALS PALAM VIHAR, GURGAON, HARYANA- 122017. Also At: M/S. Triotech Soft Infotech, 1402-C, Ansals Palam Vihar, Gurgaon, Haryana - 122017. 2. SURESH JAIN, 3. SHILPI JAIN, 4. NEELU JAIN, 2 to 4 At: C-1402, ANSALS PALAM VIHAR, GURGAON, HARYANA - 122017	03.08.2021	Rs. 2,23,05,525.12/- as on 03.08.2021	Residential House No.1402, Block-C, area measuring 435 Sq.mtrs. Having covered area 5850 Sq.Ft , in Residential Colony known as Palam Vihar, Gurgaon, Haryana situated in and around Village Chauma Tehsil and District Gurgaon, Haryana Bounded as under :- East- Road West- C-1888 North- C-1401 South- C- 1403	12.03.2022 SYMBOLIC

Date: 16/03/2022 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited



CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001

Branch Office: Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under.

The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NAME AND ADDRESS OF BORROWER \(\sigma\) \(\sigma\) \(\sigma\)

SL NO	NAME AND ADDRESS OF BORROWER & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING AMOUNT	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	Loan A/c No. No. XOHEDET00003123386 and XOHEDET00003344246. 1. JASVINDER KAUR 2. D SANJAY SINGH KUSHWAHA Above At: H.No. A-63, Gali No. 12 Indra Park, Krishna Nagar, New Delhi-110051 3 BHAGYA LAKSHMI TEXTILE At: X/3436, Raghubar Pura No.2 Gali No. 1, Gandhi Nagar, New Delhi-110031	24.11.2021	Rs. 47,61,476.90 as on 24.11.2021	All that right, title and interest of Entire Second Floor without roof right "said floor" built on Property bearing no. A- 63, with one two wheeler parking space on ground floor in Block- A, having area admeasuring 83.61 Sq. Mtrs. i.e. 100 Sq. Yds., comprised in Rect no. 11, Killa no. 17, situated at Gali no. 12 in the abadi of Indra Park in the area of village Khureji Khas, Illaqa Shahdara, Delhi; which is as bounded under: EAST - other's Property WEST -Gali 14'ft wide NORTH -Plot No.64 SOUTH - Plot No.C-18	11.03.202 SYMBOLI
2.	Loan A/c No. No. XOHEDEF00002388059 and XOHEDEF00002392221. 1. RAVINDER SINGH 2. MANOHAR SINGH 3. KULVINDER KAUR Above At: 1449/133-B STREET NO-2 DURGAPURI, SHAHADARA, NEWDELHI - 110093. 4. M/S ONKAR TRADERS Through its Authorized Representative/Proprietors At: Prop No. 2065, Chahindra D.R. HC Sen Road Faountain Road, Chandani Chowk, New Delhi-110006.	31.08.2021	Rs. 56,03,422.79/- as on 31.08.2021	All that Property No. 133, New No. 1449/133, (Ground Floor and Third Floor with roof) out of Khasra No. 436 to 441, 450 & 451, area measuring 82-1/2 sq. yds, situated at area of Village Sikdarpu, in the Abadi of Gali No.2, Durga Puri, Shahdara, Delhi which is bounded as under East - Gali 10' ft West - Road 20' ft North - Plot No.132 South - Part of Plot	11,
3.	Loan A/c No. No. XOHEELD00001754590 and XOHEELD00001754596. 1. SACHIN JAIN At: 107 /63, GALI NO.6 MAIN ROAD 1 EAST AZAD NAGAR KRISHNA NAGAR, NEWDELHI - 110051 2. M/S TANYA TEXTILE At: X/3500 TF. OLD NO.128/12-21/5A2 Gali NO.2 Gandhinagar, Newdelhi-110031 3. REKHA JAIN At: 107-63 GALI NO.6 KRISHNA NAGAR, NEWDELHI - 110051 4. ASHEESH JAIN At: B-2/A East Azad Nagar Krishna Nagar ,newdelhi - 110051 5. PANKUL JAIN At: B-2A EAST AZAD NAGAR KRISHNA NAGAR , NEWDELHI - 110051 6. M/S AASHITA FASHION At: X/3500 TF. OLD NO.128/12-21/5A2 Gali NO.2 Gandhinagar, Newdelhi-110031	12.06.2021	Rs. 59,58,725,33 as on 09,06,2021	All that piece and parcel of the Entire Second Floor portion of Property No.2-A, now Known as B-2/A, measuring 100 sq.yds out of Khasra No.906/275 and 907 /278 situated at abadi East Azad Nagar, Krishna Nagar, in the area of Village-Ghondli, Shahdara, Delhi.	11.03.20 SYMBOLI
4.	Loan A/c No. No. XOHEDEF00001880894 & XOHEDEF00001880895. 1. SHOAIB KHAN 2. SAMEENA FAROOQI 3. KALVAN BUNKAR HANDLOOM CHANDERI Above At: 197 A GALI NO 1 BLK D SANGAM VIHAR ,NEWDELHI - 110062	10.06.2021	Rs. 6089259.96/- as on 09.06.2021	All that pice and parcel of Built up Property bearing No. IX/4374, measuring 38 sq. yds., out of Khasra No.480/153, situated at Village-Seelampur, in the abadi of Gali No. 7 & 8, AjitNagar,Gandhi Nagar, Shahdara, Delhi;	.03.20) YMBOLI
5.	Loan A/c No. No. XOHEEDL00001683751 and HE02DET00000002233 1. VIKAS GOEL	1.202.1	33.80/- 1.2021	All that piece and parcel of the Property Bearing Old No. B-40, New No. B-45, Area 105+55= 160 Sq. Yds., Out of	

Khasra No. 40, Situated at Village Herapur Turk, in the abadi of Gali No. VIKAS GOEL MR. MANGE RAM GOEL 2. MRS. KUSUM GOEL 4. MRS. NIYATI GOEL 5. MR. HARSH GOEL 6. M/S HARYANA TRADING CO. 2, Chandu Nagar, Karawal Nagar, Shahdara, Delhi which is bounded as under East- Gali West - Road 20'ft wide **All Above At:** B-45, GALI NO. CHANDU NAGAR, BIHARI PUR North - Plot Of Others South - Plot of DELHI - 110094 Others Date: 16/03/2022 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

जाहीर नोटीस

ामचे सौ. माधुरी सनोजकुमार सोनकर आणि सौ । पिका हर्षल ठाकूर या स्व. श्री संजय पांडुरं गटकर आणि स्व. सौ मेघा संजय भाटकर, च्या कायदेशीर वारस असून त्यांनी मा. वाशी कोर्टात गरसा हक्काचा दिवाणी खटला दाखल केला आहे आणि त्यांच्या स्व.संजय पडूरंग भाटकः ह्यांच्यानावे नेरुळ मध्ये फ्लॅट नं. A -२०३, मजला. वैष्णोदेवी सदन कॉ-ऑप) हौसिंग सोसायट लिमिटेड. सेक २० .प्लॉट नं. डी-१८. नेरुळ. नवी मुंबई येथे आहे त्याचे मूळ निबंधिकृत दस्तावेज क्र ११४८५/२००४ आणि ४६४१/२००६ पनवेत येथे हरवले आहेत , त्याविषयी त्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशन तक्रार दिनांक ११/१२/२०२५ नोंदविली असून त्याचा L.P.R. NO. 1861/2021 आहे. तरी वरील दस्तावेज कोणाला मिळून आले असल्यास त्यांनी सदरील दस्तावेज आमच्य खालील कार्यालयात आणन जमा करावेत. तसेच वरील रूम विषय कोणास काहीही हरकत असल्यास त्याची लेखी फारकत महाल जाहिरात जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसात देण्यात यावी.

> द्वारकादास अँड असोसिएटेड अडवोकेट्स अँड नोटरी पत्ता -शॉप न.७ , त्रिमूर्ति पैराडाइज सेक्टर 1६, कामोठे, नवी मुंबई, कॉन्टॅक्ट न.9821733218

जाहीर सुचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सुचना देण्यात येत आहे की, बाबुराम पांडे हे ३१६/१५ आसरा को.ऑ.हौ. सोसायटी, सेक्टर-३, चारकोप कांदिवली (प.), मुंबई ४०००६७, या प्रथम मालक असून या सदनिकेचे शेअर्स सेअसर्टिकीकेट बाबुराम पांडे याच्या नावावर असून ते गहाळ झाले आहे. त्याची तक्रार चारकोप पोलीस स्टेशनमध्ये दि.१७/११/२०२१ रोजी केली. त्याचा एनसी क्र.२४६१ अस आहे. तरी कोणत्याही व्यक्तीस सेअसर्टिफीकेट सापडल्यास खालील मो.क्र. किंवा पत्त्यावर संपर्क साधावा. मोबाईल नं.९७०२२४८४३४

पत्ताः जी.यु. पवार बी.ए.एल.एल.बी. वकील न्यायालय ३१६/१५ आसरा को.ऑ.हौ. सोसायटी, सेक्टर-३, चारकोप कांदिवली (प.), मुंबई-४०००६७

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Sudhakar Sahadeo Kawle, the owner of Room No. B/ 206, Mangal Manohar C.H.S. Ltd., Hatisker Marg, Waigankar Wadi, Prabhadevi, Mumba 400025, expired on 12/09/2018. On behal of my client, Mr. Mandar Sudhakar Kawle s/o Late Sudhakar Sahadeo Kawle, the undersigned advocate hereby invites claims or objections from other heir/s or claimant/ or objector/s for the transfer of the share and interest of the deceased member in the said flat within a period of 14 days from the publication of this notice, with copies of proofs to support the claim/objection. If no claims objections are received within the period prescribed above, my clients shall be at the liberty to deal with the shares and interest of the deceased member in the manner he

Place: Mira Road, Thane A. Karimi Advocate High Court Date: 16/03/2022 004, B-31, Amrapali Shanti Nagar Sector 11, Near TMT Bus Stop Mira Road East, Thane 401107

("Delisting Offer")

This Public Notice is to be read together with:

Photo Limited - Delisting Offer".

Last Date for Upward Revision or

Bid Opening Date

Withdrawal of Bid

Bid Closing Date

Floor Price Per Share

papers, as applicable.

Stock Exchange.

Indicative Price Per Share

Exchanges dated December 01, 2021 (the "IPA");

Please note the following in respect of the Delisting Offer:

Lakshadeep (Marathi - Mumbai Edition) (the "DPA"); and

PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Jindal Photo Limited

(CIN: L33209UP2004PLC095076)

Registered Office: 19th K.M. Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408
Corporate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070
Tel.: +91 11 4032 2100 Website: www.jindalphoto.com, Email: cs_jphoto@jindalgroup.com

This Public Notice is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager" or "Manager

to the Offer") for and on behalf of the Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, along with Concatenate Advest Advisory Private Limited and other members of promoter and promoter group of Jindal Photo

Limited, (the "Acquirer") to the Public Shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, ("SEBI

Delisting Regulations") (as defined below) ("Public Shareholders") of Jindal Photo Limited (the

"Company") in respect of the proposed acquisition of the fully paid up equity shares of the company with

a face value Rs. 10 each ("Equity Shares") that are held by the Public Shareholders and consequent

Exchange of India Limited ("NSE") (BSE and NSE are collectively referred to as the "Stock Exchanges"

a) Initial Public Announcement made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirers to the Stock

b) the detailed public announcement in connection with the Delisting Offer, published on March 08, 2022 in

The Acquirer(s) have completed the dispatch of Letter of Offer along with Bid cum Acceptance Form / Bid Form through e-mail / speed post / registered post to all the shareholders of the Company on March 10, 2022 who were

holding Equity Shares as on the Specified Date (i.e. March 04, 2022). In the event of accidental omission to

dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder or any Public

Shareholder who has bought the Equity Shares after Specified Date, they may obtain a copy of Letter of Offer by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Link Intime India Private Limited, at their address 'C - 101, 1" Floor,

247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra', clearly marking the envelope "Jindal

The shareholder can participate / tender their Equity Shares of the Company ("Equity Shares") under the Delisting Offer through the reverse book-building process in accordance with the SEBI Delisting Regulations

DELISTING OFFER

March 24, 2022 Thursday

The Public Shareholders may also obtain copies of Letter of Offer from the website of the BSE at

www.bseindia.com or NSE at www.nseindia.com, or from the website of the Registrar to the Offer, at

FOR EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM: Before submitting the Bid Form to the Seller Member(s).

you must execute valid share transfer deed(s) in respect of the Equity Shares intended to be tendered under the Delisting Offer and attach thereto all the relevant **original physical share certificate(s). The share transfer deed(s)** shall be signed by the Public Shareholder (or in case of joint holdings by all the joint holders in the same

order) in accordance with the specimen signature(s) recorded with the Company and shall also be duly

witnessed. A copy of any signature proof may be attached to avoid any inconvenience. In case, the sole/any joint holder has died, but the share certificate(s) are still in the name of the deceased person(s), please enclose the

requisite documents, i.e., copies of death certificate/Will/Probate/Succession Certificate and other relevant

Please refer Para 15 of DPA and Para 11 of LOF for Detailed Procedure and Methodology of Bidding through

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigation

and analysis and shall not have any claim against the Acquirer, the Manager to the Offer or the Promoter, or the Company or the Registrar to the Offer or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be

suffered by such person consequent to or in connection with such Offer and tender of equity shares through reverse book building through Acquisition Window Facility or OTB or otherwise whether by reason of anything

This Public Notice is issued only for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of

Sundae Capital Advisors Private Limited

Contact Person: Anchal Lohia / Ridima Gulati

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS BY THE MANAGER TO THE OFFER

per Equity Share

<u>www.linkintime.co.in</u> and the website of the Company at <u>www.jindalphoto.com</u>.

March 17, 2022 Thursday Bids can be placed only during normal

March 23, 2022 | Wednesday | trading hours of the secondary market

Rs. 268.04/- (Rupees Two Hundred and Sixty Eight and Four Paise only

Rs. 269/- (Rupees Two Hundred and Sixty Nine only) per Equity Share

c) the letter of offer dated March 08, 2022 in connection with the Delisting Offer ("Letter of Offer")

(i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); and iii) Mumbai

oluntary delisting of the equity shares of the Company from the BSE Limited ("BSE") and National Stock

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that, MR CHANDRAKANT PURSHOTTAM SHAH with his wife MRS_SMITA CHANDRAKANT SHAH was a co-owner Flat No.C-002 and was member of Patel Nagar Co operativeHousing Society Ltd., M.G. Cross Road No.4, Kandivali (West), Mumba 400067. Mr. Chandrakant Purshottam Shah has expired on 24.05.2019 intestate leaving behind him his legal heirs Mrs. Smita Chandrakant Shah and Mr. Sandeep Chandrakant Shah. Mrs. Smita Chandrakant Shah, co-owner in respect o said flat and legal heir of the deceased Chandrakant Purshottam Shah, hac executed a Release Deed dated 14/09/2021 in favour of another legal heir and her sor MR. SANDEEP CHANDRAKANT SHAH Mr. Sandeep Chandrakant Shah has applied for transfer of aforesaid Flat No.C-002 in the society record in his fayour. If anybody has any objection for such transfer in favour of the Mr. Sandeep Chandrakant Shah, then h she, within 15 days from this publication may / shall raise written objection along with valid documents to the undersigned a Suruchi Corner, Opp. Bandra Court, Anant Kanekar Marg, Bandra (E), Mumbai 400051 The objection from anybody, beyond the aforesaid stipulated period, shall not be taken into consideration, which please note Advocate Sandeep Kumar Singh Mobile : 8600844972

जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माझे अशील हे फ्लॅट क्र.५०७ विंग ए, ५वा मजला, क्षेत्रफळ सुमारे ५५० चौ.फु., चंद्रा भुवन कोहौसोलि. म्हणून ज्ञात इमारत, चंद्रलोक ए, ९७, नेपियन्सी रोड, मुंबई-४००००६, जमीन सी.एस.क्र.१६४, डी वॉर्ड, मुंबई शहर (यापुढे सदर फ्लॅट म्हणून संदर्भ) तसेच चंद्रा भुवन कोहौसोलि म्हणून ज्ञात सोसायटीद्वारे वितरीत अनुक्रमांव २८९ ते २८५ धारक भागप्रमाणपत्र क्र.५६ यासह (यापुढे सदर शेअर्स) सर्व जागा श्रीमती हन्साबेन ऊर्फ हन्सा भानु ऊर्फ भानुचंद्र शाह यांच्याकडून सर्व अधिकार, हक व हित खरेदी व प्राप्त करू इच्छित

जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅट/शेअर्सबाबत विक्री, भाडेपट्टा, तारण, बक्षीस, अधिभार अदलाबदल, मालकीहक्क इत्यादी किंवा अन्य इतर स्वरुपाचा कोणताही अधिकार, हक हित, दावा व मागणी असल्यास त्यांनी खालील स्वाक्षरीकर्ताकडे लेखी स्वरुपात सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत योग्य पुराव्यांसह कळवावे अन्यथा वर नमुद सदर फ्लॅट/शेअर्सबाबतचे सर्व अधिकार व मालकीहक हे अशा दाव्यांच्या संदर्भाशिवाय माझ्या अशिलाकडे हस्तांतर केले जातील आणि ते यापुढे त्याग केले आहेत म्हणून समजले जाईल.

सही/-श्री. अजित डी. मांजरेकर वकील उच्च न्यायालय ४०१. श्री सत्यम अपार्टमेंट, आर.एम रोड, दहिसर पुलाजवळ, दहिसर (प.) मुंबई-४०००६८. दूर.:०२२-२८९००२३०/९६९९६६७०९० ठिकाण: मुंबई दिनांक: १६.०३.२०२२

कायद्याचे प्रकरण २१ चे भाग १ अंतर्गत नोंदणीबाबत सूचना देण्याची जाहिरात (कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम

३७४(बी) आणि कंपनी (नोंदणीस प्राधिकृत) अधिनियम, २०१४ चे नियम ४(१) नुसार)

नमुना क्र. युआरसी-२

- . येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ३६६ चे उपकलम (२) नुसार शेअर्सद्वारा कंपनी मर्यादित म्हणून कंपनी कायदा २०१३ चे प्रकरण २१ चे भाग १ अंतर्गत एस आरके एवाय कन्सल्टींग ग्रुप एलएलपी या एलएलपी संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी सेन्ट्रल रजिस्टेशन सेन्टर, सहकार मंत्रालय येथील कंपनी निबंधकांकडे १५ दिवसानंतर परंतु ३० दिवसांच्या समाप्तीपुर्वी अर्ज करण्यात येणार आहे.
- कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे: सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, इंटिग्रेशन, मेंटेनन्स अंमलबजावणी यासह पण मर्यादित न ठेवता तंत्रज्ञान आधारित उपाय आणि सेवा प्रदान करणे; हार्डवेअर आणि नेटवर्किंग नियोजन, डिझाइन, एकत्रीकरण, उत्पादन आणि अंमलबजावणी; डिजिटल तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रक्रिया, व्यवसाय स्टार्टअप, विक्री आणि विपणन यावर सल्लामसलत; सॉफ्टवेअर, डिजिटल तंत्रज्ञान, सोल्यूशन्स, हार्डवेअर, प्रक्रिया आणि व्यावसायिक गरजा यावर प्रशिक्षण ; विश्लेषण आणि व्यवसाय अंतर्दृष्टी आधारित तंत्रज्ञान आणि उपाय; डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उपाय; कंपन्यांना नवीन सेटअप त्वरीत सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी ऑफिस सोल्यूशन्स आणि सेवा; स्टार्टअप इनक्यूबेटर आणि प्रवेगक जे भारतात आणि जागतिक स्तरावर व्यवहार्य उपक्रमांमध्ये वाढण्यासाठी नवीन कल्पनांचे पोषण, निधी आणि मदत करेल.
- . नियोजित कंपनीचे मेमोरेण्डम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचे प्रती कं पनीचे बी/१२०२, दी कॅपिटल, जी ब्लॉक, वांद्रे (पुर्व), वांद्रे, मुंबई-४०००५१, महाराष्ट्र, भारत येथे निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.
- येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कोणाही व्यक्तीचा सदर अर्जास आक्षेप असल्यास त्यांनी त्यांचे आक्षेप लेखी स्वरुपात सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी) येथील निबंधक, इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (आयआयसीए), प्लॉट क्र.६,७,८ सेक्टर ५, आयएमटी मनेसार, जिल्हा गुरगाव (हरियाणा)-१२२०५० येथील निबंधकांकडे सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून २१ दिवसांत पाठवावेत. तसेच एक प्रत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवावी.

आज दिनांकीत १५ मार्च, २०२२

च्या वतीने व करिता एसआरकेएवाय कन्सल्टींग ग्रुप एलएलपी सही/-आलोक कुमार पदसिद्ध भागीदार डीआयएन:0२७३०९५६

नोटीस

श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कूल ट्रस्ट संचलित, श्रीमती सुनीतीदेवी सिंघानिया स्कूल **पोखरण रोड क्र. २, ठाणे,** याचे व्यवस्थापन बदल करण्याचे ठरवले असून यापुढे या शाळेचे व्यवस्थापन श्री<mark>मती सुनीतीदेवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट</mark> असे असेल. या बाबत कोणालाही कोणतीही हरकत किंवा सूचना करणे आवश्यक वाटल्यास त्यांनी आजपासून १५ दिवसाच्या आत शिक्षण उपसंचालक बृह्नमुंबई, जवाहर बाल भवन, चरणी रोड, मुंबई ४००००४ येथे पाठवाव्यात. त्यानंतर प्राप्त सूचना व हरकर्तींचा विचार करण्यात येणार नाही.

श्रीमती सुनीतीदेवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कूल ट्रस्ट मुंबई मुंबई

येथे सूचना देण्यात येत आहे की**, नविन फ्लोराईन इंटरनॅशनल लिमिटेड** यांचा नोंदणी पत्ता: कार्यालय क्र.६०२, नटराज बाय रुस्तमजी, पश्चिम द्रुतगती महामार्गाजवळ, सर मथुरादास वासनजी रोड, अंधेरी पुर्व, मुंबई–४०००६९, महाराष्ट्र यांचे खाली नमुद समभाग हरवले आहेत आणि सदर समभाग धारक, खरेदीदारांनी दुय्यम भागप्रमाणपत्र वितरणासाठी कंपनीकडे अर्ज केला आहे

जर कोणा व्यक्तीस उपरोक्त शेअर्सबाबत काही दावा असल्यास त्यांनी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालया आजपासून १५ दिवसांत कळवावे. अन्यथा कंपनीकडून पुढील कोणतीही सूचना न देता उपरोत्त अर्जदारास दुय्यम भागप्रमाणपत्र वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.

फोलिओ	भागधारक/संयुक्त भागधारकाचे	भागांची	अनुक्रमांक	प्रमाणपत्र
क्र.	नाव	संख्या	पासून-पर्यंत	क्र.
२१००३३१३	उर्विश परमानंद पटेल, वनलिला रमनलाल पटेल यांच्यासह संयुक्तपणे	ч	४७७८१४५६-४७७८१४६०	५५३१६७
२२०१०४९६	वनलिला रमनलाल पटेल, उर्विश परमानंद पटेल यांच्यासह संयुक्तपणे	ч	४७७८१५४१-४७७८१५४५	५५३१७६
१६०१४३१३	परमानंद चिमनलाल पटेल, उर्विश परमानंद पटेल यांच्यासह संयुक्तपणे	ч	8998062£-819988000	५५३१३५
२२००३२२७	वनलिला रमनलाल पटेल, परमानंद चिमनलाल पटेल यांच्यासह संयुक्तपणे	ч	७४७७८१५०१-४७७८१५०५	५५३१७१
१६०१४३१८	परमानंद चिमनलाल पटेल, वनलिला रमनलाल पटेल यांच्यासह संयुक्तपणे	ч	X99C\$00\$-X99C\$00A	५५३१३६
ठिकाण: मुं	बई	सही/-	– सर्ह	t/-
दिनांक: ०८	.03.7077	उर्विश पी.	पटेल वनलिल	ना पटेल

PICICI Bank

आय सी आय सी आय बँक लिमिटेड. रजिस्टर्ड ऑफिस: आय सी आय सी आय बँक टॉवर, चकली सर्कल जवळ, जुना पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात - ३९० ००७. कॉपरिट ऑफिस: **आय सी आय सी आय बँक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - ४०० ०५१.** आय सी आय सी आय बँक लि., फिनिक्स मार्केट सिटी शाखेच्या वतीने

शाखा स्थलांतिरत करण्याबाबत १७ जानेवारी २०२२ रोजी प्रकाशित झालेल्या वृत्तपत्रातील जाहिरातीच्य संदर्भात, आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की शाखा स्थलांतराची **तारीख १६ मार्च २०२२ ते १९ मार्च २०२२**

पर्यंत संधारित करण्यात आली आहे. आम्ही आपल्याला कळवू इच्छितो की १९ मार्च २०२२ पासून आम्ही अधिक सोयीस्कर ठिकाणी स्थलांतः

करत आहोत. नवीन ठिकाणाचा पत्ता खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे: आय सी आय सी आय बँक लिमिटेड, तळमजला, जेनिक बिल्डिंग, सी.टी.एस नं. २६७ - बी (भाग), कुल फायर ब्रिगेड स्टेशनच्या पुढे, एल. बी. एस रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई-४०००७०.

भापल्या खाते क्रमांकामध्ये किंवा आपल्याला दिलेल्या सुरक्षा आयटम्समध्ये काहीही बदल होणार नाही. भापल्या फिनिक्स मार्केट सिटी शाखेत लॉकर धारण करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खालील मार्गदर्शक तत्त्वे लाग्

आमच्या शाखेचे स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेत, आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे सुरक्षित ठेव लॉकर देखील यावर स्थलांतरित करणार आहोत. लॉकर युनिट्सचे स्थलांतर १७ मार्च २०२२ रोजी सुरू होईल आणि ते १९ मार्च २०२२ रोजी नवीन ठिकाणी स्थापित केले जातील.

जर तुम्हाला तुमचे लॉकर नवीन ठिकाणी चालवणे सुरू ठेवायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला तुमचे लॉकर रिकार् करण्याची आणि त्यातील सामग्रीचा ताबा घेण्याची विनंती करतो. कृपया १७ मार्च २०२२ पूर्वी असे करा. तुम्ही नुमच्या सोयीनुसार,१९ मार्च २०२२ नंतर बँकिंग तासांदरम्यान कधीहीँ, नवीन ठिकाणी बदलू शकता नर तुम्ही तुमचे लॉकर रिकामे करू शकत नसाल, तर आम्हाला लॉकर युनिट्स, त्यातील सामग्रीसह हलवा

लागतील. लॉकर युनिट्स योग्य देखरेखीखाली हलवले जातील आणि त्यांना काळजीपूर्वक हाताळ प्रत्येक खबरदारी घेतली जाईल.

आम्ही तुम्हाला सदैव सर्वोत्तम सेवा देण्याचे आश्वाशन देत आहोत.

आपला शुभचिंतक,

पत्ता: फ्लॅट क्र.ए३-२०२, लुन्कड स्कायवाय, रिलायन्स फ्रेशजवळ, विमान नगर, पुणे-फिनिक्स मार्केट सिटी शाखा ४११०१४, महाराष्ट्र, भारत.

जाहीर नोटीस

याद्वारे कळविणेत येते की **श्री. अखलाख अहमद फक्रुद्दीन पटेल** रा. वांद्रे पोलीस लेन, एफ/२५, वांद्रे (प.), मुंबई-४०००५० हे कार्यरत शासकीय कर्मचारी दि. १५/०४/२०२१ रोजी मयत झाले.

	मृत्युपश्चात त्याना पुढे नमुद केलेप्रमाणे कायदेशीर वारस आहेत.				
अ.	नाव	वय	मृत		
क्र.	(विवाहीत महीला असल्यास लग्नापूर्वीचे व		व्यक्तीशी		
	लग्नानंतरचे अशी दोन्ही नावे नमुद करावीत)		नाते		
१)	श्रीमती नसीमबानु फक्रुद्दीन पटेल/श्रीमती नसीमबनु				
	हयातचाँद पटेल	४५ वर्ष	बहीण		
२)	श्रीमती सायराबानु फक्रुद्दीन पटेल/सायराबानु				
'	मेहबुबपाशा पटेल	५६ वर्ष	बहीण		
3)	श्रीमती हरबानु फक्नुद्दीन पटेल/हरबानु				
	जलालउद्दीन रुकुंदी	५२ वर्ष	बहीण		
8)	श्री. बाबसाहेब फक्रुद्दीन पटेल	५८ वर्ष	भाऊ		
۷)	श्री. जाकीरहुसेन फक्रुद्दीन पटेल	५० वर्ष	भाऊ		
ξ)	श्री. अब्दुलगफुर फक्रुद्दीन पटेल	४६ वर्ष	भाऊ		
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · /		

उक्त नमुद वारसांना उक्त नमुद व्यक्ति पश्चात त्यांच्या निवृत वेतन/प्रॉव्हीडंट फंड/ अनुकंपा तत्वासीठी शासकीय कर्मचाऱ्याचे वारस या नात्याने वारस दाखला हवा असल्याने तसा अर्ज तहसीलदार अंधेरी यांचेकडे केला आहे.

त्या अनुषंगाने कुणा व्यक्तीचा आक्षेप असल्यास त्यांनी तहसीलदार अंधेरी यांचे कार्यालय, दादाभाई नौरोजी रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८ यांचेकडे लेखी पुराव्यासह नोटीस प्राप्त झालेपासून ७ दिवसात संपर्क साधावा अन्याथा प्रकरणी आक्षेप नाही असे समजून निर्णय घेणेत येईल.

> अर्जदाराचा नाव पत्ता नसीमबानु हयातचाँद पटेल

एफ/२५, वांद्रे पोलीस लेन, आर.के. पाटकर मार्ग, दिनांक: १६-०३-२०२२ वांद्रे (प.), मुंबई-४०००५०.

धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः २रा मजला, इमारत क्र.४, डी.जे. हाऊस, जुना नागरदास रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६९. दूर.:+९१-२२-२८२६४२९५, **वेबसाईटः www.dhanvarsha.co, सीआयएनः** एल२४२३१एमएच१९९४पीएलसी३३४४५७

धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेडची विशेष सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग/अन्य टृकश्राव्य माध्यमाने घेण्याबाबत सदस्याना सूचना

सदस्यांना सूचना देण्यात येथे येत आहे की, धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड (कंपनी) ची विशेष सर्वसाधाणर सभा (ईजीएम) सोमवार, दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ रोजी दु.३.००वा. सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमाने (ओएव्हीएम) मार्फत कंपनी कायदा २०१३ च्या लागु तरतुदी (कायदा) आणि त्यातील नियमाअंतर्गत आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन्स) सहवाचिता सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत परिपत्रक सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२०, ३३/२०२० दि.२८ सप्टेंबर, २०२०, ३९/२०२० दि.३१ डिसेंबर, २०२०, १०/२०२१ दि.२३ जून, २०२१ आणि २०/२०२१ दि.८ डिसेंबर, २०२१ (यापुढे एमसीए परिपत्रक) आणि सेबीद्वारा वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ व सेबी/एचओ सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११, दि.१२ मे, २०२० आणि दि.१५ जानेवारी २०२१ नुसार ईजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रकानुसार ईजीएम सूचना ज्या सदस्यांचे ई–मेल कंपनी किंवा संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे नोंद आहेत त्यांना ई–मेलने पाठविण्यात आले आहे. ईजीएमची सूचना कंपनीच्या www.dhanvarsha.co आणि स्टॉक एक्सचेंजेच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सदस्यांना त्यांचे मत ईजीएम सूचनेत नमुद विषयावर ईजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने किंवा विद्युत मतदान प्रणालीने रिमोटमार्फत देता येईल. रिमोट ई-वोटिंग/सदस्यांकरिता ई-वोटिंगची पद्धत डिमॅट स्वरुपात भागधारक, वास्तविक भागधारक आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत अशांकरिता

सदस्यांना ईजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फतच उपस्थित व सहभागी होता येईल ज्याचे तपशील ईजीएम सूचनेत देण्यात आले आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत ईजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांची कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या उद्देशाकरिता मोजणी केली जाईल.

ईजीएम सूचना प्राप्त करण्यासाठी ई–मेल नोंद/अद्यायावत करण्याची पद्धत:

एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार कोणाही सदस्यास ईजीएम सूचनेच्या वास्तविक प्रती दिल्या जाणा नाहीत. ज्या सदस्यांनी अद्यापी त्यांचे ई–मेल कंपनी/ठेवीदार सहभागीदाराकडे नोंद केले नाहीत त्यांनी त्यांचे ई-मेल नोंद करून ईजीएम सूचना प्राप्त करण्यासाठी आणि/किंवा व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेने ईजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी लॉगईन तपशिलाकरिता खाली नमुद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे.

वास्तविक फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत (दर्शनी व मागील भागधारणा: बाजू), पॅन (स्वसाक्षांकित पॅनकार्ड स्कॅन प्रत), आधार (स्वसाक्षांकित आधारकार्ड स्कॅन प्रत) असे सर्व आवश्यक तपशील निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी यांना subodh@mcsregistrars.com/कंपनीला corpsec@dhanvarsha.co वर ई-मेल करावे.

तुमचे संबंधित ठेवीदार सहभागीदार (डीपी) कडे तुमचा ई-मेल व मोबाईल क्रमांक

धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेडकरित सही/ ललित चेंदवणक कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

दिनांक: १५ मार्च, २०२२

ट्रान्सवॉरन्टी फायनान्स लिमिटेड

नोदणीकृत कार्यालय: ४०३, रीजेंट चेंबर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई -४०००२१. दुरध्वनीः ४००१ ०९०० फॅक्सः ४००१ ०९९९

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम ११० आणि इतर लागू तरतुर्दीचे पालन करून, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सहवाचिता नियम २० आणि नियम २२ रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ (लिस्टींग रेग्युलेशन्स), भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरीत सर्वसाधारण असलेला समावेश. सर्वसाधारण परिपत्रक क.१४/२०२० दि.८ एप्रिल २०२०. सर्वसाधारण परिपत्रक क.१७/ काम पूर्ण केले आहे, ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी किंवा लिंकइन टाईम इंडिया प्रा.लि. १८६ अंतर्गत गुंतवणूक/कर्ज/हमी/प्रतिभूतीकरिता मंजूरी.

रिमोट ई-व्होटिंग

कंपनीने रिमोट ई-व्होटिंग करिता नॅशनल सर्व्हिसेस डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा प्रदान केली आहे. या व्यक्तीचे नाव समासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लामार्थी मालकांच्या यादीत नोंद तारखेला देसते, म्हणजेच **शुक्रवार, ४ मार्च, २०२२** रोजी फक्त रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

ई-मेल पत्ता नोंदणी करण्याची पद्धत आणि महत्त्वाची सूचना :

. लेक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. च्या einward.ris@kfintech.com वर ईमेल पत्ता, मोबाईल नंबर, पॅन कार्डची वयं-साक्षांकित पत आणि भाग प्रमाणपत्राची पत प्रदान करून विनंती पत्राची स्वाक्षरी केलेली पत सोबत. ईमेल विनंती

भागधारकान त्यांचे पॅन, संपूर्ण केवायसी तपशील (पोस्टल पत्ता पिनसह, मोबाइल नंबर, ईमेल पत्ता, बँकेने तपशील, स्वाक्षरीसह) आणि फॉर्म आयएसआर-१ मधील नामांकन तपशील लवकरात लवकर बमा करावी. वरीलपैकी कोणतेही दस्तऐवज/तपशील कंपनी/आरटीए कडे दि १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा नंतर उपलब्ध न झाल्यास, सेबीच्या परिपत्रकानुसार वास्तविक भागधारकांचे फोलिओचा निकाल थांबवले जातील. सेबी श्वारपास, सबाच्या पारप्रकानुसार वास्तावक माग्यारकाच कालाआचा निकाल बाबवल बाताल. सबा परिपत्रकानुसार, वास्ताविक माग्यारकांना त्यांच्या भाग्यारणेच लवकरात लवकर डीमटेरिअलावड्रोशन करण्याची विनंती केली बाते, हस्तातरण/प्रसारण विनंत्यासह कोणत्याही गुंतवण्कृत्वार सेवेच्या विनंत्यांवर केवळ डीमटेरिअलाइज्ड पध्दतीत प्रक्रिया केली चाईल. डिमटेरिअलायझेशनची विनंती लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लि., कंपनी निबंधक आणि हस्तांतर प्रतिनिधी ला सावर केली बाऊ शकते.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध मदत आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि ई-व्होटिंग वापरकर्ता पुस्तिका पाह शकतात किंवा टोल फ्री कमांक: १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० कॉल करू शकतात किंवा कु. सरिता मोटे यांना evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा किंवा नोंदणीकृत ई-मेल किंवा संबंधित बार्बीवर टेपाल मतदान सूचना न मिळाल्याबद्दल कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी किंवा विनंत्यांसाठी companysecretary@transwarranty.com वर ई-मेल करावे

ई-वोर्टिग आणि निकाल जाहीर करण्याकरिता तपासनीस ः

कंपनीच्या संचालक मंडळाने, टपाल मतदान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याकरिता

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये ट्रान्सवॉरंटी फायनान्स लिमिटेडकरि

ई-मेल:companysecretary@transwarranty.com, वेबसाइट:www.transwarranty.com

टपाल मतदान आणि रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

(नियम), सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिकायरमेंटस्) सभेवरील सचिवप्रमाण -२ कोणत्याही वैधानिक फेरफार(रे) किंवा त्यातील पुनर्अधिनियम(चे) यांचा सध्या अंमलात जनतराता समानवा, चार्चावाया मार्च्यक क्र.२५, १२२० वर्ड एक्टरा २२२, सचनावाया मार्च्यक क्र.२५, २२२० दि.१५ प्रिक्ति २०२०, सर्वेसाधारण परिपत्रक क्र.२२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, सर्वेसाधारण परिपत्रक क्र.३३/२०२० दि.२८ सप्टेंबर, २०२०, सर्वेसाधारण परिपत्रक क्र.३९/२०२० दि.३१ डिसेंबर, नाराजन क्रा. २२/२० व.२० व.२० तर्चन, २००, त्रचतापात नाराजन क्र.२०/२०२२ व्हान्स, २०२०, सर्वेद्याधारण परिपक्त क्र.१०/२०२१ दि.२३ जून, २०२१ आणि सर्वसाधारण परिपक्त क्र.२०/२०२१ दि.८ डिसेंबर, २०२१ रोजी सहकार मंत्रालयाने जारी केले पडामोडी, भारत सरकार ('एमसीए') आणि इतर लागू कायदे आणि नियमांच्या अधीन राहून, कंपनीने **मंगळवार, १५ मार्च, २०२२ रोजी,** सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने, रिमोट ई-मतदानाकरिता लॉगिन आयडी आणि पासवर्डच्या तपशिलांसह टपाल मतदान सूचना पाठवण्याचे कंपनीचे निबंधक आणि हस्तांतरण प्रतिनिधी (लिंक इनटाइम किंवा आरटीए) सह नोंदणीकृत आहेत, ठराव पास करमाच नावचक आन्त रुसामस्य ज्ञानम् (राज्य क्ष्मान्य नावच आरटार्स्) तह नायस्य अस्य वर्षः करण्याकरिता केवळ रिमोर ई-महार्टिगद्वारे राणा मतदानाद्वारे कर्माच्या सदस्यांची मंत्र्री मिळविण्यासाठीः ९. विशेष ठराव म्हणून कंपनीच्या मेमोरॅंडम ऑफ असोसिएशनच्या उद्देश खंडामध्ये बदल. २. अधिकृत भाग भांडवलात वाढ आणि परिणामी कंपनीच्या मेमोरॅंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये एक सामान्य ठराव म्हणून वदल. ३. विशेष ठराव म्हणून आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचा नवीन संच स्वीकारणे. ४. विशेष ठराव म्हणून कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, १६ मार्च, २०२२ रोजी स. ९:००वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि गुरुवार, १४ एप्रिल, २०२२ रोजी साथ. ५:००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. तदनंतर मतदानासाठी एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-व्होटिंग पघ्दत अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांना उक्त तारीख आणि वेळेच्या पुढे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या सदस्यांनी डिमॅट स्वरूपात, वास्तविक स्वरूपात भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनाच रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मत देता येईल आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केले नाहीत अश . वदस्यांसाठी टपाल मतदान सूचनेत प्रदान केले आहे.

. डीमॅट भागधारकांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींशी संपर्क साधण्याची विनंती केली जाते. वास्तविक भागधारकांना कंपनीच्या निबंधक आणि हस्तांतर प्रतिनिधीशी संपर्क साधण्याची विनंती केली जाते

सेबी परिपत्रक दि.३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या सहवाचिता सेबी परिपत्रक दि.१४ डिसेंबर २०२१, वास्तविक

श्री. योगेश शर्मा (आयसीएसआय सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ११३०५), मालक सी. एस. योगेश शर्मा ॲण्ड कं. (कार्यरत कंपनी सचिव), यांची तपासनीस ('स्क्रुटिनायझर') म्हणून नियुक्ती केली आहे. पाल मतदान सुचना कंपनीच्या http://www.transwarranty.com/Transwarranty

InvestorRelations वेब-लिंक वर आणि एनएसडीएल च्या https://www.evoting.nsdl.com/ वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि मीएसई लिमिटेडच्या www.bscindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com येथे वेबसाइटवर देखील प्रवेश केला जाऊ शकतो, जिथे कंपनीचे इक्रिटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत. तपासनीसांच्या अहवालासह निकाल **शनिवार, १६ एप्रिल, २०२२** रोजी केवा त्यापूर्वी वर नमूद केलेल्या वेबसाइटवर जाहीर केले जातील.

सही/-

प्रॉक्टर ॲण्ड गॅम्बल हायजिन ॲण्ड हेल्थ केअर लिमिटेड CIN:L24239MH1964PLC012971

नोंद. कार्या.: पी ॲण्ड जी प्लाझा, कार्डिनल ग्रेशस मार्ग, चकाला, अंधेरी (पू), मुंबई-४०००९९. दूर.:(९१-२२) २८२६६०००, फॅक्स:(९१-२२) २८२६७३३७, ई-मेल:investorrpghh.im@pg.com; वेबसाईट:in.pg.com याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीने पारित केलेली खालील भाग प्रमाणपत्रे हरविली/अपस्थापित झाली असे कळविण्यात आले आहे आणि

त्थामुळ नादणाकृत	। धारकाना प्रातालपा भाग प्रमाणपः	त्र पारित करण्याकारत	। कपनाकड अज कला	आह.	
फोलिओ	भागधारकाचे नाव	भाग	विशिष्ट	क्रमांक	शेअर्सची
क्र.		प्रमाणपत्र क्र.	पासून	पर्यंत	संख्या
एन००००४९५	महाबीर प्रसाद निगम/ संतोष कुमार निगम/	५७६६	१६३४०३४	१६३४०५१	१८

। क्रिशन कुमार ।नगम वरील भाग प्रमाणपत्रांबाबत खरेदी किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्याविरुद्ध इशारा देण्यात येत आहे. सदर भाग प्रमाणपत्रांशी संबंधित कंपनीसोबत कोणताही दावा/दावे असणाऱ्या कोणाही व्यक्ती/व्यक्तींनी तो दावा कंपनीच्या वर दिलेल्या पत्त्यावरील नोंदणीकृत कार्यालयाकडे सदर नुना प्रसिद्ध याल्यापासून १५ दिवसांच्या आतु नोंदवावा या कालावधीनंतर कोणाताही दावा विचारात घेतला जाणार नार भाग प्रमाणपत्रे पारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.

प्रॉक्टर ॲन्ड गॅम्बल हायजीन ॲण्ड हेल्थ केअर लिमिटेडकरित

ठिकाण : मुंबई घनश्याम हेगडे दिनांक : १५ मार्च, २०२२ कंपनी सचिव

जिलेट इंडिया लिमिटेड

CIN:L28931MH1984PLC267130

नोंद. कार्या.: पी ॲन्ड जी प्लाझा, कार्डीनल ग्रेसीअस रोड, चकाला, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०००९९. द्र.:(९१-२२)२८२६ ६०००; फॅक्स:(९१-२२)२८२६ ७३३७, **E-mail ID**: investorgil.im@pg.com; website: in.pg.com

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीने पारित केलेली खालील भाग प्रमाणपत्रे हरविली/अपस्थापित झाली असे कळविण्यात आव आहे आणि त्यामळे नोंदणीकत धारकांनी प्रतिलिपी भाग प्रमाणपत्रे पारित करण्याकरिता कंपनीकडे अर्ज केला आहे.

फोलिओ	भागधारकाचे नाव	भाग	विशिष्ट	क्रमांक	शेअर्सची
क्र.		प्रमाणपत्र क्र.	पासून	पर्यंत	संख्या
१५२१०	सुप्रिया नाहर (जुने नाव) सुप्रिया पुंगलीया (नवीन नाव)	१५२१०	१५२०२७१	१५२०३७०	१००

वरील भाग प्रमाणपत्रांबाबत खरेदी किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करण्याविरुद्ध इशारा देण्यात येत आहे. सदर भाग प्रमाणपत्रांशी संबंधित कंपनीसोबत कोणताही दावा/दावे असणाऱ्या कोणाही व्यक्ती/व्यक्तींनी तो दावा कंपनीच्या वर दिलेल्य पत्त्यावरील नोंदणीकृत कार्यालयाकडे सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत नोंदवावा. या कालावधीनंत कोणताही दावा विचारात घेतला जाणार नाही आणि कंपनी प्रतिलिपी भाग प्रमाणपत्रे पारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.

जिलेट इंडिया लिमिटेडकरीता सही/ फ्लेविओ मचाडो दिनांक : १५ मार्च. २०२२ कंपनी सचिव ठिकाण : मुंबई



ठिकाण : मुंबई

पुनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड

(पुर्वीची मॅग्मा हौसिंग फायनान्स लिमिटेड) कॉर्पोरेट कार्यालय: ६०२, ६वा मजला, झिरो वन आयटी पार्क, अ.क्र.७९/१, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे-४११०३६

मागणी सूचना सरफायसी कायदा २००२ चे कलम १३(२) अन्वये तुम्ही खाली नमुद केलेले कर्जदार व सहकर्जदार/जामिनदार यांनी **मॅग्मा हौसिंग फायनान्स लिमिटेड, एमएचएफएल** आता **पुनावाला** है<mark>रिसिंग फायनान्स लिमिटेड (पीएचएफएल)</mark> म्हणून ज्ञात, यांच्याकडून तुमचे स्थावर मालमत्ता तारण ठेवण्याद्वारे कर्ज उपलब्ध करून घेतले होते आणि त्याची परतफेड करण्यास कसूर केलेली आहे. तुम्ही कसूर केली असल्याने तुमचे कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेटमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये थकबाकी रक्कम वसुलीकरिता सदर करारनामानुसार मागणी सूचना वितरीत केली होती, र्त

नोटीस ना-पोहोच होता पुन्हा प्राप्त झाली आहे. म्हणून यामधील सर्व घटक हे कायद्याच्या कलम १३(२) सहवाचिता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ चे नियम ३(१) अन्वये प्रकाशित करण्यात आली तसेच अन्य पर्यायी सेवासुद्धा बजावण्यात आली. कर्जदार, सहकर्जदार, हमीदार, प्रतिभृती, थकबाकी देयके, कलम १३(२) अन्वये पाठविलेली मागणी सूचना आणि दावा केलेली रक्क

GIL	GICHCIA-H-H.				
अ.	कर्जदार, सहकर्जदार, जामिनदारांचे	प्रतिभूत मालमत्तेचे वर्णन	मागणी सूचना	देय रक्कम	
क्र.	नाव व कर्ज रक्कम		दिनांक	(₹.)	
१	जयश्री राम कुशवाह, उसरावती जयश्री	फ्लॅट क्र.२०२, २रा मजला, एच-१, वर्धमान	२२.१२.२०२१	रु.६०९,८१४/- (रुपये सहा	
	कुशवाह, जयश्री आर. कुशवाह फ्रुट सेन्टर	सृष्टी, विष्णु नगर, पालघर, माहिम रोड, पालघर		लाख नऊ हजार आठशे चौदा	
	कर्ज रक्कम रु.६७५,०००/-	पश्चिम, ठाणे, मुंबई-४०१४०४ येथील तारण		फक्त) तसेच १३.३०% दराने	
	कर्ज क्र.:HL/0027/H/13/100275	मालमत्तेचे सर्व भाग व खंड.		रक्कम जमा होईपर्यंत पुढील व्याज	
2	प्रविण प्रकाश मानेपाटील, लता प्रकाश		२२.१२.२०२१	रु.१५,९०,४४०/- (रुपये	
	मानेपाटील, विनोद प्रकाश माने	को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.,		पंधरा लाख नव्वद हजार चारशे	
	कर्ज रक्कम रु.१२,००,०००/-	एस.क्र.५७, हिस्सा क्र.४, वानवारी, पुणे-		चाळीस फक्त) तसेच १४%	
	कर्ज क्र.:HL/0123/H/16/100002	४११०४० येथील तारण मालमत्तेचे सर्व भाग व		दराने रक्कम जमा होईपर्यंत	
		खंड.		पुढील व्याज	

तुम्ही कर्जदार व सहकर्जदार/जामिनदार यांना सदर सूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांत वर नमुद केलेली मागणी रक्कम तसेच त्यावरील पुढील व्याजासह रक्कम जमा करण्यास तुम्हाला कळविण्यात येत आहे. वर नमुद केलेल्या प्रतिभूतीवर कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे . अधिकार खालील स्वाक्षरीकर्त्याकडून वापरले जातील. कृपया नोंद असावी की, सदर कायद्याचे कलम १३(१३) नुसार आमच्या पुर्व लेखी परवानगीशिवाय विक्री, भाडेपट्टा किंवा अन्य इतर प्रकारे वर संदर्भीत प्रतिभूतींचे हस्तांतर करण्यास तुम्हाला रोखण्यात येत आहे.

पुनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेडकरिता (पुर्वीची मॅग्मा हौसिंग फायनान्स लिमिटेड) दिनांक : १६.०३.२०२२ प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: १६ मार्च, २०२२

SUND@E

stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise

SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, "Platina", Plot No. C - 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai -400 051 Tel.: +91 22 6700 0639 E-mail: jpl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com

On behalf of Acquirer to the Offer for Soyuz Trading Company Limited

Radhey Shyam Director Director Place: New Delhi

lti Goyal Date: March 15, 2022

Pramod Kumar Company Secretary

2022 में राज्यों का जीएसटी बकाया 53,661 करोड़ रुपये

अरूप रॉयचौधरी नई दिल्ली, 15 मार्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में कहा कि राज्यों को वस्त् एवं सेवा कर मुआवजा के तौर पर 96,756 करोड़ रुपये दिए गए हैं लेकिन इसके बाद भी 53,611 करोड रुपये का मुआवजा दिया जाना बाकी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी बकाया जारी करने को लेकर परी तरह से प्रतिबद्घ है।

सीतारमण ने राज्य सभा सांसद वाईएस चौधरी के प्रश्न के जवाब में कहा, 'केंद्र जीएसटी (राज्यों को क्षतिपर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत संक्रमण अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र

शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए क्षतिपर्ति उपकर को 5 फीसदी से अधिक करेगी साथ ही विशेष खिडकी योजना के जरिये लिए गए ऋण का शोधन करेगी।'

सीतारमण की तरफ से रखे गए आंकडों के मताबिक महाराष्ट्र सरकार का जीएसटी मुआवजा बकाया 11.563 करोड़ रुपये है जो कि राज्यों के स्तर पर सर्वाधिक है। इसे जारी किया जाना बाकी है।

मोटा जीएसटी मुआवजा बकाये वाले अन्य राज्यों में 6,954 करोड़ रुपये के साथ उत्तर प्रदेश, 6,733 करोड रुपये के साथ तमिलनाडु और 5,461 करोड़ रुपये के साथ दिल्ली का स्थान है।

Corrigendum to the Detailed Public Announcement and Letter of Offer for the tention of the public shareholders o UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS LIMITED

CIN: L22222UP2011PLC103611

Uttar Pradesh -245408 India: Corporate Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex Vasant Kun

Delhi - 110070, India; Tel. No.: +91-11-40322100; Fax No.: +91-11-40322129

Website: www.universusphotoimagings.com: Email Id: cs_uphoto@universusphotoimagings.com Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Suresh Kuma

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Detailed Public Announcement and the the Letter of Offer unless otherwise specified. Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer unless otherwise defined

The Equity Shareholders / Beneficial Owners of the equity shares of Universus Photo Imagings Limited are requested to note the amendments with respect to and in connection with the Detailed Public Announcement published on March 11, 2022 and the Letter of Offer dated March 14, 2022 as sent to the shareholders as under:

The signature to the Detailed Public Announcement and on page 26 of the Letter of Offersha be read to be signed as follows

Manoj Kumar Rastogi

Radhey Shyam Director

Iti Goyal Company Secretary Managing Director All other terms and conditions of the Offer, Detailed Public Announcement and the Letter of

in this Corrigendum to the Public Announcement and confirms that such document contains

rue, factual and material information and does not contain any misleading information Issued by Manager to the Offer

Corporate Professionals Capital Private Limited D-28, South Extension Part-1, New Delhi-110049, India

Contact person: Ms. Anjali Aggarw Telephone: 011-40622230/40622215

Email: mb@indiacp.com Website: www.corporateprofessionals.com

SEBI Registration No.: INM000011435 Validity Period: Permanent

Corporate Identity Number: U74899DL2000PTC104508

On behalf of Acquirer to the Offer

Manoj Kumar Rastogi Radhey Shyam

Managing Director

Place : New Delhi Date : March 15, 2022

PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF **Jindal Photo Limited**

Iti Goyal

Company Secretary

(CIN: L33209UP2004PLC095076) egistered Office: 19th K.M. Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi Bulandshahr Uttar Pradesh - 203 408 porate Office: Plot No. 12, Sector B - 1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel.: +91 11 4032 2100 Website: www.jindalphoto.com, Email: cs_jphoto@jindalgroup.com

This Public Notice is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager" or "Manage to the Offer") for and on behalf of the Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, along with Concatenate Advest Advisory Private Limited and other members of promoter and promoter group of Jindal Photo Limited, (the "Acquirer") to the Public Shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") (as defined below) ("Public Shareholders") of Jindal Photo Limited (the "Company") in respect of the proposed acquisition of the fully paid up equity shares of the company with a face value Rs. 10 each ("Equity Shares") that are held by the Public Shareholders and consequent voluntary delisting of the equity shares of the Company from the BSE Limited ("BSE") and National Stock ISE") (BSE and NSE ("Delisting Offer")

This Public Notice is to be read together with

a) Initial Public Announcement made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirers to the Stoc Exchanges dated December 01, 2021 (the "IPA");

the detailed public announcement in connection with the Delisting Offer, published on March 08, 2022 in (i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); and iii) Mumba Lakshadeep (Marathi - Mumbai Edition) (the "DPA"); and

c) the letter of offer dated March 08, 2022 in connection with the Delisting Offer ("Letter of Offer")

The Acquirer(s) have completed the dispatch of Letter of Offer along with Rid cum Acceptance Form / Rid Form through e-mail / speed post / registered post to all the shareholders of the Company on March 10, 2022 who were holding Equity Shares as on the Specified Date (i.e. March 04, 2022). In the event of accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder or any Public Shareholder who has bought the Equity Shares after Specified Date, they may obtain a copy of Letter of Offer by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Link Intime India Private Limited, at their address 'C - 101, 1st Floor, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra', clearly marking the envelope "Jindal Photo Limited - Delisting Offer"

The shareholder can participate / tender their Equity Shares of the Company ("Equity Shares") under the Delisting Offer through the reverse book-building process in accordance with the SEBI Delisting Regulations

ricase note the following in respect of the belisting offer.					
DELISTING OFFER					
Bid Opening Date	March 17, 2022	Thursday	Bids can be placed only during normal		
Last Date for Upward Revision or	March 23, 2022	Wednesday	trading hours of the secondary market		
Withdrawal of Bid					
Bid Closing Date	March 24, 2022	Thursday			
Floor Price Per Share	Rs. 268.04/- (Rupees Two Hundred and Sixty Eight and Four Paise only)				
	per Equity Share				
Indicative Price Per Share	Rs. 269/- (Rupees Two Hundred and Sixty Nine only) per Equity Share				

The Public Shareholders may also obtain copies of Letter of Offer from the website of the BSE a www.bseindia.com or NSE at www.nseindia.com, or from the website of the Registrar to the Offer, a www.linkintime.co.in and the website of the Company at www.jindalphoto.com.

FOR EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM: Before submitting the Bid Form to the Seller Member(s) you must execute valid share transfer deed(s) in respect of the Equity Shares intended to be tendered under the Delisting Offer and attach thereto all the relevant original physical share certificate(s). The share transfel deed(s) shall be signed by the Public Shareholder (or in case of joint holdings by all the joint holders in the same order) in accordance with the specimen signature(s) recorded with the Company and shall also be duly witnessed. A copy of any signature proof may be attached to avoid any inconvenience. In case, the sole/any join holder has died, but the share certificate(s) are still in the name of the deceased person(s), please enclose the requisite documents, i.e., copies of death certificate/Will/Probate/Succession Certificate and other relevant papers, as applicable

Please refer Para 15 of DPA and Para 11 of LOF for Detailed Procedure and Methodology of Bidding through Stock Exchange

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigati and analysis and shall not have any claim against the Acquirer, the Manager to the Offer or the Promoter, or the Company or the Registrar to the Offer or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Offer and tender of equity shares through reverse book building through Acquisition Window Facility or OTB or otherwise whether by reason of anything tated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever

This Public Notice is issued only for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise.

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS BY THE MANAGER TO THE OFFER



Sundae Capital Advisors Private Limited

SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, "Platina", Plot No. C - 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Tel.: +91 22 6700 0639

E-mail: jpl.delisting@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com Contact Person: Anchal Lohia / Ridima Gulat

On behalf of Acquirer to the Offer for Sovuz Trading Company Limited Radhey Shyam Iti Gova

Director

Place: New Delhi

Date: March 15, 2022

Pramod Kumar Company Secretary

एनएमपी में नैबफिड करेगा परियोजनाओं का वित्तपोषण

मुंबई, 15 मार्च

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा जो देश की 6 लाख करोड रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का हिस्सा हैं।

संपत्ति मुद्रीकरण से संसाधन मुक्त होंगे और उद्योग के पास पहुंचेंगे। नैबिफिड के चेयरमैन के वी कामत ने मुंबई में इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संसाधनों की बडी

चार वर्ष की अवधि, वित्त वर्ष 2022 से 2025 में एनएमपी के तहत समग्र संपत्ति पाइपलाइन का मल्य 6 लाख करोड रुपये आंकी गई है। अनुमानित मुल्य के लिहाज से शीर्ष पांच क्षेत्रों में समग्र पाइपलाइन मूल्य का 83 फीसदी शामिल है। इन पांच क्षेत्रों में सड़क की हिस्सेदारी 27 फीसदी, रेलवे की 25 फीसदी, विद्युत की 15 फीसदी, तेल और गैस पाइपलाइन की 8 फीसदी और दरसंचार की हिस्सेदारी 6 फीसदी है।

कामत ने कहा कि बैंक 20,000 करोड़ रुपये के पंजीगत आधार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया कराएगा। बैंक अप्रैल, 2022 से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में परियोजना के लिए पहला ऋण मंजूर कर कारोबार करना आरंभ करेगा। फिलहाल, मुख्य कार्याधिकारी सहित प्रमुख पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी स्वामित्व वाली यह फंडिंग एजेंसी अगले तीन वर्ष में 3-4 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने पर विचार कर रही है। वित्तपोषण में जोर उचित समयावधि और ठीक कीमत पर रहेगा। दीर्घावधि के लिए देनदारी जुटाने वाली बीमा और पेंशन फंडों जैसी संस्थाओं के उभार के साथ विगत 20 वर्षों में वित्तपोषण के माहौल में बदलाव आया है। उन्हें दीर्घावधि की परियोजनाओं में धन लगाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं ऐसे अवसर मुहैया कराती हैं।

राजकोषीय परिषद गठित करने की योजना नहीं: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मार्च

न मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति द्वारा प्रस्तावित किसी राजकोषीय परिषद के गठन की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा निकाय वह भूमिका निभा हैं, जिसकी परिकल्पना प्रस्तावित राजकोषीय परिषद के लिए की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दो अलग-अलग उत्तरों में कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और वित्त आयोग जैसे प्रतिष्ठान एफआरबीएम एनके सिंह समिति द्वारा राजकोषीय परिषद के लिए प्रस्तावित कुछ या पुरी भूमिका निभा रहे हैं।

राज्यसभा सदस्य एम षणमुगम और आरजी वेंकटेश ने पूछा था कि क्या केंद्र ने स्थिर और टिकाऊ सार्वजनिक वित्त को बढ़ावा देने के लिए किसी स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना रह

परिषद की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 14वें वित्त आयोग द्वारा रखा गया था। बाद में इसकी प्रस्तावित भूमिका और कार्यों को वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समिति द्वारा वर्ष 2017 में और 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) से वर्ष 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक रखा गया था। एफआरबीएम की इस समिति और 15वें वित्त आयोग दोनों का ही नेतृत्व एनके सिंह कर रहे थे।

और पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा ने कहा कि सरकार का ऐसा रुख बना हुआ है कि मौजूदा निकाय पर्याप्त हैं। वित्त आयोग ने इस रिपोर्ट में अपना यह नजरिया पेश किया है कि राजकोषीय परिषद क्यों होनी चाहिए, सरकार की वित्तीय नीति पर उसका मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ क्यों होने

वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए अपनी रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि हम एक स्वतंत्र

किसी स्वतंत्र राजकोषीय

15वें वित्त आयोग के सदस्य

 वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि मौजूदा निकाय निभा रहे एफआरबीएम की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय परिषद की कुछ या पूरी भूमिका

राजकोषीय परिषद की स्थापना की सिफारिश करते हैं, जिसके पास जरूरत के अनुरूप केंद्र और राज्यों के लेखे-जोखे तक की पहुंच की शक्तियां हों। इस राजकोषीय परिषद की केवल एक सलाहकार भिमका रहेगी। यह स्पष्ट रूप से प्रवर्तन से अलग होगी, जो सरकार के अन्य अंगों का विशेषाधिकार

रिपोर्ट में कहा गया था कि इस

परिषद के कार्यों में - कार्य बहु-वर्षीय विस्तृत अर्थव्यवस्था और राजकोषीय पूर्वानुमान प्रदान करना, सरकार के विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यों की तुलना में राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, राज्यों के मामले में राजकोषीय लक्ष्यों की उपयुक्ता और निरंतरता का आकलन करना, दीर्घावधि की राजकोषीय स्थिरता का स्वतंत्र मल्यांकन आदि शामिल होंगे।

उपभोक्ताओं पर चीन की आपूर्ति गेहूं की बिक्री के लिए कम संख्या में बाधा से असर नहीं : सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 15 मार्च

चीन में कोविड-19 के मामलों में आई ताजा उछाल से चीन की आपूर्ति शृंखला में व्यवधान का भारतीय उपभोक्ताओं पर खासा सीधा असर पडने की संभावना नहीं है। लोकलसर्कल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में जानकारी मिली है।

ऐसा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि भारतीय परिवारों की बडी संख्या – सर्वेक्षण में शामिल 39 प्रतिशत परिवारों ने कहा है कि

पिछले एक साल में

उन्होंने चीन में निर्मित

कोई भी उत्पाद नहीं

खरीदा है। इस अवधि के दौरान चीन द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने वाले परिवारों में से दो-तिहाई से अधिक उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्होंने एक साल पहले के मुकाबले अपनी खरीदारी कम कर दी है।

निष्कर्षों के अनुसार गैजेट. इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सजो-सामान चीन में निर्मित ऐसे मुख्य उत्पाद हैं, जिन्हें भारतीय खरीदते हैं। सर्वेक्षण में देश के 309 जिलों में स्थित घरेल उपभोक्ताओं से तकरीबन 27,000 जवाब मिले हैं।

सर्वेक्षण में उस मुख्य वजह को भी समझने की कोशिश की गई है, जिसने भारतीयों को पिछले 12 महीने के दौरान चीन या भारतीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अपने जवाब में अधिकांश 61 प्रतिशत परिवारों ने कहा है कि उन्होंने भारत-चीन के मामलों के कारण भारत में बने उत्पादों को ज्यादा खरीदा। 18 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि भारतीय विकल्प बेहतर गुणवत्ता वाला था, 14 प्रतिशत ने कहा कि भारतीय विकल्प

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। आधिकारिक आंकडों अनुसार वित्त वर्ष 21 में दोनों देशों के बीच कुल 86.39 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें व्यापार संतलन का झकाव चीन

मूल्य-गुणवत्ता का बेहतर

संयोजन था।

सरकारी बैंकों ने 3 साल में 41,269 करोड़ रुपये के त्वरित ऋण बांटे

निकुंज ओहरी

नई दिल्ली, 15 मार्च

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सितंबर 2018 से लेकर फरवरी 2022 के बीच करीब 41,269 करोड़ रुपये के त्रण बांटे हैं।

39,580 करोड़ रुपये के करीब 2.01 लाख ऋण प्रस्ताव कारोबारी ऋण श्रेणी में बांटे गए हैं और 1,689 करोड़ रुपये के 17,791 प्रस्ताव खुदरा ऋण श्रेणी में बांटे गए हैं। राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड ने राज्य सभा को सुचित किया कि ये सभी प्रस्ताव 25 सितंबर, 2018 से 28 पीएसबीलों सइन59िमनट् सडॉटकॉम

पोर्टल के जरिये दिए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण देने के लिए इस पहल की घोषणा 2018 में की गई थी। पोर्टल का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है। इस पोर्टल पर सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंक मौजूद हैं। पोर्टल के मुताबिक ये बैंक अब 59 मिनट में 5 करोड़ रुपये तक के ऋण की सैद्धांतिक मंजरी दे रहे हैं। पोर्टल

की घोषणा ऋण देने की प्रक्रिया में नए बेंचमार्क को स्थापित करने और इसमें लगने वाले 20 से 25 दिनों के समय को घटाकर 59 मिनट करने के लिए की गई थी। मंजुरी के बाद 7-8 दिनों में ऋण दिए जा रहे हैं।

तीन वर्ष में सर्वाधिक ऋण महाराष्ट्र में दिए गए। यहां करीब 25,834 उधारकर्ताओं को कुल मिलाकर 5,220 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 30,732 आवेदकों को 4,434 करोड रुपये त्वरित ऋण प्रोसेसिंग पोर्टल के माध्यम से दिए गए। महाराष्ट्र और यूपी के बाद गुजरात का स्थान है जहां 20,485 आवेदकों को 3,864 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। पंजाब में 14,471 उधारकर्ताओं को 3,043 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए।

कराड ने यह भी कहा कि पोर्टल केवल ऋण की मंजूरी देता है और ऋण की रकम पर अंतिम फैसला ऋणदाताओं का होता है। ऋणदाता मंजूर किए गए ऋण खातों की निगरानी करते हैं और किसी खाता के गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत होने पर वसूली के लिए कदम उठाते हैं।

में पंजीकरण करा रहे किसान

संजीव मुखर्जी

नई दिल्ली, 15 मार्च

मध्य प्रदेश में सरकारी एजेंसियों को गेहं की बिक्री करने के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या में 17 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि निजी कंपनियां गेहं की बढ चढ़ कर खरीदारी कर रही हैं।

रूस यूक्रेन संकट की वजह से वैश्विक कीमतों में तेजी आई है।

आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तारीख 10 मार्च तक करीब 19.8 लाख किसानों ने सरकारी एजेंसियों को गेहं की बिक्री के लिए आवेदन किया था जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या करीब 24 लाख रही थी।

मध्य प्रदेश में ऐसा लंबे वक्त बाद हो रहा है। केंद्रीय पल के लिए गेहूं की सरकारी खरीद करने वाला मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा को पछाड कर पंजाब के बाद दुसरे स्थान पर काबिज है।

युक्रेन संकट के कारण गेहूं के दाम बढ़ने से मध्य प्रदेश सरकार अपने खरीद लक्ष्य को घटाने पर विचार कर रही है

सार्वजनिक वितरण के निदेशक दीपक सक्सेना ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को भोपाल से फोन पर कहा, पंजीकरणों में कमी आने की वजह से हम अपने खरीद लक्ष्य को अब 1.28 करोड टन से कम कर 1 करोड टन करने रहे जा रहे हैं। यदि कीमतें मौजदा दर पर बरकरार रहती हैं तो आगे इसमें और कमी आ सकती है।

सक्सेना ने कहा कि पंजीकरणों में तेज और अप्रत्याशित गिरावट के लिए दो प्रमख कारण जिम्मेदार हैं। पहला यह कि सरकार ने सभी आवेदकों को उनके आधार संख्या से सत्यापित करने का निर्णय लिया है और दूसरा तथा अहम कारण है से एक है। पिछले पांच वर्ष से मंडी कीमतों में अचानक से आई केंद्रीय पूल में सबसे बड़े तेजी। सक्सेना ने कहा, 'हम 2,015 कुछ दिनों पहले वैश्विक बाजारों योगदानकर्तों के तौर पर मध्य प्रदेश रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम में भारतीय गेहूं की कीमतें 360 समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई थी रहे हैं जबिक राज्य की विभिन्न जिसके बाद यह 340 से 350 डॉलर मध्य प्रदेश में खाद्य और मंडियों में पिछले 10 से 15 दिनों प्रति टन पर बनी हुई है।

से औसत कीमत 2,300 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के करीब बनी हुई है।' राज्य सरकार ने इस वर्ष करीब 1.4 करोड़ टन गेहूं के भंडारण की व्यवस्था की है जिसके लिए उसने चना और अन्य फसलों का हटाकर जगह बनाई है, लेकिन अब लगता है कि शायद अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं पडेगी।


राज्य की जिन सभी बडी मंडियों में फसल की बिक्री की जाती है उनके बाहर टैक्टरों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में

एक किसान ने कहा, 'कुछ हफ्तों पहले से गेहं की बिक्री करीब 2,000 रुपये प्रति क्विंटल हो रही थी लेकिन अब अचानक से कीमतें 2.300 रुपये से 2.500 रुपये तक पहुंच गई है। इस वजह से किसान तेजी से अपनी फसल बेचने पर विचार कर रहे हैं। ' उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सिलसिला होली के बाद भी जारी रहेगा क्योंकि तब आवक में वृद्धि होने की उम्मीद है।

रूस यक्रेन संकट के मद्देनजर

बीएस सूडोकू 4306

परिणाम संख्या 4305



उत्तर प्रदेश

कैसे खेलें? हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में

एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।

खन्ना

आसान **★★☆☆☆**

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना ६६८ रुपये की गिरावट के साथ 51,727 रुपये प्रति १० ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 52.395 रुपये प्रति १० ग्राम पर बंद हआ था। चांदी की कीमत भी 1,390 रूपये की गिरावट के साथ 67,997 रुपये प्रति कि-लोग्राम रह गई, जो पिछले कारोबारी सत्र में 69.387 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.930 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी २५.५८ डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी।

बंद भाव रूपये प्रति क्विंटल लखनऊ

गेहूं दड़ा 2175/2185, गेहूं शरबती 3150/3250, चावल शरबती सेला 4600/4800, स्टीम 5600/5700, लालमती ४७००/४८००, चावल (सोना)

4200/4300, दाल अरहर सवा नं 8000/8100, पटका 8800/9200, रिजेक्शन 6500/7300, चना दाल 5900/ 6000, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना ६०५०/६२००, एग्रो प्योर बेसन 2400, मटर विदेशी 7100/7200, उड़द साबुत (काला)७०००/८०००, दाल उड़द (काली) 7200/8500, उड़द धोया 8000/9200, मसूर छोटी 6700/6800, मलका ८२००/८५००, किरानाः जीरा 20300/22400, लालिमर्च गुंदूर 21000/ 29500, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5200/5300, धनिया एमपी 10500/ 11800, छोटी इलायची (किलो) 1000/ 1450, बड़ी इलायची 730/770, कालीमिर्च (किलो) 550/580, सुपारी (किलो) 440/500, सोंफ मोटी 9300/ 11800. मंगरेल 22500/23500. चिरोंजी (किलो) 1200/1300, मखाना 450/670

दिल्ली

गेहूं लूज 2160/2165, जो 2275/2375,

चावल मसूरी २६००/२७००, चावल मोटा २४५०/२५००, देशी चना ५४५०/५५००, चना 6050/6200, 6150/6250, विदेशी मटर ×, पिचकी 4700/4900, मटर दाल 6500/ ६६०० अरहर लेमन ६८००/६९००, दाल अरहर ९०००/९७०, स्पेशल ८६००/ ८८००,उड़द एसक्यू ७४००/७४२५, एफएक्यू 6800/6850, राजमा चित्रा 9700/13000, मूंग 6500/7100, मसूर छोटी 6800/7000, छांटी 8600/8800, सरसों 6000/6300, तिल सफेद 8400/ 8500, सोया (टीन) 2550/2750, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2650/2700, सरसों खल 3150/3250, पामोलिन २५५०/२६००, वनस्पति घी (यपी एफओआर) १९००/२०००, मधुसूदन देशी घी ७३५०, वासुदेव ७०५०, परम प्रीमियम 7350, पदम श्री 7300, लीलाधर ७३००, अलसी १०५००/१०७०, लोकल 10000/10200, राजस्थान १०४००/१०७०, बढ़िया 11200/12200, हल्दी 9200/11300, 21000/22500, 14000/18000, मेथी 7700/8100, मखाना ४४०/६६०, कालीमिर्च (किलो) 560/620, लालिमर्च (किलो) तेजा 215/280, (334) न. 200/205, सुपारी (किलो) केरल ४७०/५२०, कर्नाटक चिक्नी 460/480, गोला 23000/24000

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल ११७०, बोल्ड क्रिस्टल (१२ नं.)११५०, फ्लैक १११०, डीएमओ ९४०, टरपीन लैस बोल्ड ११८० मुजपफरनगर गुंड़ (40 किलो): लड्डू 1125/1180,

खुरपा १०५०/१०७५,चाकू १०८०/१२००, 1000/1020, शक्कर रसकट 1240/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त)ः खतौली ३५८०, सिहोरा ३४३०, देवबंद ३४७०, थाना भवन 3450, बुढ़ाना 3440, शामली 3440, चीनी हाजिर 3800/3850

अनाज-दालः गेहूं २१५०/२१६०, चावल परमल २३५०/२४००, डुप्लीकेट बासमती सेला ७१००/७२००, बासमती ११२१ स्टीम 8300/8400, चना 5200/5250, चनादाल 5800/5900, काबली चना 7500/8500. राजमा देशी चित्रा 10500/ 11500, अरहर लेमन ६६००/७००, दाल अरहर 8000/8800, मसूर 7300/ 7500, उड़द देसी 6450/6550,

जीएसटी अतिरिक्त (पति क्विं): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट) १९०. राइसब्रान (अखाद्य) १८८, खल सरसों

2950, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद १२८०, कंटीन्युअस १२८०, सरसों (टन) 25000, सूरजमुखी (टन) 25000, अनाजः गेहूं 2240/2250, आटा (50 किलो) १ १८०, मैदा १ ३५०, मक्की एमपी

कानपुर